



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29—अगस्त 4, 2006 (श्रावण 7, 1928)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29—AUGUST 4, 2006 (SRAVANA 7, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 मई 2006

सं. एफ. 40/7/2006/ए.एन.-1/जी.एन.-5653--अध्यक्ष महोदय, श्रीमती अचला मलहोत्रा, वरिष्ठ संसदीय रिपोर्टर को वैयक्तिक आधार पर सुनिश्चित करियर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन योजना के अंतर्गत 12,750-375-16,500/- रुपए के अगले उच्चतर वेतनमान में स्थानन करके 6 मई, 2006 से प्रथम वित्तीय उन्नयन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. श्रीमती अचला मलहोत्रा का उच्चतर वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन/स्थानन किया जाना दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 के आर एंड सी एस आदेश संख्या पी डी ए-1042/2001 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा।

जे. पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2006

सं. एफ. 40/7/2006/ए.एन.-1/जी.एन.-5685--अध्यक्ष महोदय, 10,000—15,200/- रुपए के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II को वैयक्तिक आधार पर सुनिश्चित करियर प्रोन्नति/वित्तीय

उन्नयन योजना के अंतर्गत 10,650-325-15,850/- रुपए के अगले उच्चतर वेतनमान में स्थानन करके प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख (तारीखों) से प्रथम वित्तीय उन्नयन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	वित्तीय उन्नयन प्रभावी होने की तारीख
1.	श्री आर. भास्करन (29 मई 2006 से 10,650—15,850/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-I नियुक्त)	30.06.2006
2.	श्री किशोर कुमार ढोंगरा	24.06.2006
3.	श्री रमेश चन्द गोसाई	24.06.2006
4.	श्री कोना मधुसूदन राव	24.06.2006
5.	श्री सोमनाथ बनर्जी	29.06.2006
6.	श्री एस. प्रभाकर	23.06.2006

2. ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों का उच्चतर वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन/स्थानन किया जाना दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 के आर एंड सी एस

आदेश संख्या पीडीए-1042/2001 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा।

जे. पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. एफ. 40/7/2006/ए.एन.-1/जी.एन.-5686--अध्यक्ष महोदय, 10,000—15,200/- रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री मुथैया मोहन, संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II को वैयक्तिक आधार पर सुनिश्चित करियर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन योजना के अंतर्गत 10,650-325-15,850/- रुपए के अगले उच्चतर वेतनमान में स्थानन करके 8 जुलाई, 2006 से प्रथम वित्तीय उन्नयन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. श्री मुथैया मोहन का उच्चतर वेतनमान में प्रथम वित्तीय उन्नयन/स्थानन किया जाना दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 के आर एंड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1042/2001 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित होगा।

जे. पी. शर्मा, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2006

सं. ए. 12022/2/2006-प्रशासन IV--वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के आदेश संख्या 11016/2/2005-आईईएस, दिनांक 7.4.2006 के तहत वरिष्ठ समयमान (10,000-325-15,200/-) से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (12,000-375-16,500/- रुपए) में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी श्री एस. एम. जयपालन ने, योजना आयोग के हैदराबाद स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय में उपसलाहकार के रूप में दिनांक 27 अप्रैल, 2006 की पूर्वाह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

(राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. 32/34/7/2001-प्रशासन 1 (ए)/रा.अ.रि. ब्यूरो-5264--राष्ट्रपति सहर्ष श्री एस. के. जैन, भा. पु. से. (ए.एम-84) को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय से उप-निदेशक के पद से दिनांक 02.06.2006 (अपराह) को कार्यभार मुक्त करते हैं।

सुशीला मिंज, अनुभाग अधिकारी

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. 14031/1/2003-यूटीएस--अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1975 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

श्री आर. पी. सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 जून, 2006 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विक्रम देव दत्त, उप सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. 14012/11/2006-अ.भा.से. III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए.जी.एम.यू. संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री निखिल कुमार	2002	02.09.2004
2.	श्री विकास आनन्द	2002	02.09.2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2006

सं. क्यू/पी ए-1/09/2006--भारत का राजदूतावास द हेग में राजदूत श्रीमती लीला कृष्णमूर्ति पोन्प्पा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 जून, 2006 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी एवं काडर)

कार्यालय: प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. डी-III/460/सी एफ-40/2004--भारत के राष्ट्रपति ने श्री शशांक भगत की दिल्ली में एल सलवाडोर गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री शशांक भगत को कौंसली क्षेत्राधिकार में होगा : दिल्ली।

शाम के. मुडगिल, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए. 12011/03/2006-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, व्यय विभाग के दिनांक 15.06.2006 और 27.06.2006 के का.ज्ञा. सं.-32014/2/2005-सीएएस के अनुसरण में और संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2004 के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के

आगे लिखी तारीख से वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	रैंक संख्या	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस. आर. राजा	166	28.06.2006 (पूर्वाह)
2.	सुश्री लिटिसिया गोम्स	214	30.06.2006 (पूर्वाह)
3.	श्री विजय कुमार (अनुसूचित जाति)	327	03.07.2006 (अपराह)

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए.19011/10/2006-प्रशा.II--राष्ट्रपति, श्री आनंद मोहन बजाज (आईए तथा एएस : 90) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 11 जुलाई, 2006 के पूर्वाह से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2006

सं. ए-15012/1/2005-डीआरटी--बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्री के. जे. परतवार को 14 दिसम्बर, 2005 (पूर्वाह) से पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, मुम्बई में पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. 13/2/2004-डीआरटी--ऋण वसूली अधिकरण-III में पीठासीन अधिकारी श्री ए.जी. मिश्रा की अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर वे 7 जुलाई, 2006 (अपराह) से पीठासीन अधिकारी के पद पर नहीं रहेंगे।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. 8/2/2004-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित

धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय में उप विधि सलाहकार श्री प्रेम मोहन मिश्रा को 21 जून 2006 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी 62 वर्ष की आयु हो जाने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए-15012/1/2005-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने श्री एम. विश्वनाथम, अधिवक्ता, को 23 जून, 2006 (पूर्वाह) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु होने तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, बेंगलूर में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

ए. थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-20012/8/69-स्थापना I--राष्ट्रपति, श्री राम कंवर, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप, 30 जून, 2006 के पूर्वाह से नियमित आधार पर बरिष्ठता कोटे में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. श्री राम कंवर, अनुभाग अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में दिए अनुसार दिनांक 30.6.2006 से दो वर्ष की अवधि के लिए 'परीक्षण' पर रहेंगे।

एस.पी.एस. सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-11019/1/2006-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री पूनाट्ट वकी जक्करियास को प्रधान महा-लेखाकार (लेखा-परीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम के कार्यालय में दिनांक 30.03.2006 (पूर्वाह) से अगले आदेश होने तक 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

सं. ए-11019/1/2006-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के श्री रामस्वामी नारायणन को प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक), कर्नाटक, बंगलौर के कार्यालय में दिनांक 03.04.2006 (अपराह्न) से अगले आदेश होने तक 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

महेन्द्र कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, वित्त मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में व्यय विभाग में 31.12.2006 अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
	(सर्वश्री/श्रीमती)	
1.	कुसुम जैन	30.06.2006
2.	मनजीत कौर	03.07.2006
3.	आर.आर.एस. रावत	03.06.2006
4.	मधु गुप्ता	03.06.2006
5.	कृष्ण पंजवानी	03.06.2006
6.	अमरजीत सिंह	03.07.2006

तदर्थ नियुक्ति ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को इस ग्रेड में बने रहने या चयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड 'ए' एंड 'बी' मर्ज्ड में वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी। यह तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

मीताली घोष, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. ए-23021/1/2001-प्रशासन--संच लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2004 में अर्हता प्राप्त करने के फलस्वरूप भारत के राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय के नियमित सहायक श्री संतोष कुमार दुबे को 29 जून, 2006 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी ग्रेड की 2004 की चयन सूची (परीक्षा कोट) के प्रति 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में इस मंत्रालय में के.स.से. के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

आनन्द प्रकाश, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2006

सं. 2(12)/2002-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003 के लिए इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल करने हेतु नामित किए जाने पर राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के तथा उसी सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री अनिल कुमार, सहायक को दिनांक 20.06.2006 से तथा अगले आदेशों तक उपर्युक्त चयन सूची में एतद्वारा शामिल करते हैं। उन्हें इसी तारीख से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. 11(39)/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्रेणी सी आशुलिपिक तथा उसी संवर्ग में निजी सचिव (विलयित ए एवं बी श्रेणी) के रूप में कार्यरत श्री प्रभु दयाल को दिनांक 30.06.2006 तक (अपराह्न) से 31.12.2006 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में निजी सचिव (विलयित क एवं ख श्रेणी) के रूप में स्थापनापन्न रूप से कार्य करने के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

तदर्थ आधार पर की गई यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :

इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित काल तक इस पद पर बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निजी सचिव (क एवं ख श्रेणी) (विलयित) की श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा; तथा

तदर्थ आधार पर की गई यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

बाबू राम, अवर सचिव

सं. 5 (1)/2005-स्थापना--इस्पात मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय में श्री ए. के. चुग की प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1.7.2006 से 31.12.2006 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

तदर्थ आधार पर की गई इस पदोन्नति से उन्हें अनिश्चित काल तक प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

बाबू राम, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

दिनांक 3 जुलाई 2006

नई दिल्ली-110049, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-19011/3/2006-प्रशा.-- राष्ट्रपति, श्री एस.के. लोहानी, सी. एस.एस. को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री एस.के. लोहानी ने 11.07.2006 (पूर्वाह्न) से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एम. जयरामन, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2006

सं. ए-11011/4/2002-प्रशा.-- राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 20.6.2006 के कार्यालय आदेश सं. 13016/2/2006-आई ई एस के अनुसरण में श्रीमती सुनीता यादव, भारतीय आर्थिक सेवा, को 28 जून, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. नायक, अवर सचिव

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2006

सं. (ए-11013/3/2004)-स्था.-1.-- राष्ट्रपति श्री वी.बी सिंह, (आई.ई.एस.-85) को राज्य मंत्री (कृषि) और राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) (श्री तसलीमुद्दीन) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर 14 जून, 2006 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके मंत्री महोदय के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एस. एस. के. राव, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 जून 2006

सं. ए-19014/30/84-प्रशा.1 (ए).-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 जून, 2006 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं :-

1. डा. (श्रीमती) ऊषा शर्मा, वैज्ञानिक "जी"
2. डा. जे. के. शर्मा, वैज्ञानिक "जी"
3. श्री एम. एल. गुप्ता, वैज्ञानिक "जी"
4. श्री एस. के. विज, अनुभाग अधिकारी

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

सं. ए-19014/05/2004-प्रशा.1 (ए).-- राष्ट्रपति, डा. (श्रीमती) अनिता अग्रवाल को 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक "सी" के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 28.06.2006 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. के. तरिखा, अवर सचिव

(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. ए-32011/02/2002-स्था.-- राष्ट्रपति, श्रीमती राजलक्ष्मी मुरलीधरन, वैज्ञानिक "बी" को 1 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से एवं अगले आदेशों तक सुनम्य सम्पूरक योजना के अधीन इस विभाग में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में उसी स्थान (इन सीटू) में कल्पित आधार पर वैज्ञानिक "सी" के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त के संबंध में वास्तविक वित्तीय लाभ उनके छुट्टी से लौटने की तिथि अर्थात् 5 फरवरी, 2006 के तत्काल प्रभाव से स्वीकार्य होगा।

एस. सी. अग्रवाल, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-19018/4/2005-स्था.-- राष्ट्रपति, श्री सतीश बैरागी, वैज्ञानिक 'सी' को डीएसआईआर में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद, इस निदेश के साथ, कि वे मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें, 10.07.2006 (अपराह्न) से उनके मूल विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय, बीकानेर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को वापस भेजते हैं।

श्रीनिवास प्रधान, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 जुलाई 2006

सं. ए. 12012/10/2005.पी. II.-- राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2006 सी.एस. I, दिनांक 29 जून, 2006 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की उप सचिव (स्व स्थाने) श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव को 29 जून, 2006 (पूर्वाह्न) से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (i) इस तदर्थ प्रोन्नति के परिणाम स्वरूप इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन

सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और

- (ii) इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2006

सं.17013/01/2005-भा.व. सेवा-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2005 की चयन सूची तैयार करने के लिए 31 दिसम्बर, 2005 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग में 1 जनवरी, 2005 को उपलब्ध पदोन्नत रिक्तियों को भरने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम शामिल हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	टी. पी. धिम्मा रेड्डी	06.11.1956
2.	डी. नागभूषणम	05.11.1955
3.	एन. चन्द्र मोहन रेड्डी	10.06.1961
3-ए*	एम. ए. वाहिद	12.05.1953
4.	टी. सुधाकर	09.12.1951
5.	डॉ. जी. नरसिंह	24.10.1957

*अधिकारी के नाम पर सामान्य विचारार्थ जोन के अतिरिक्त विचार किया गया है और उनका नाम चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त शामिल किया गया है। उनका नाम अंतिम रूप से शामिल किया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है।

2. 31.12.2005 को हुई इसकी बैठक के कार्यवृत्त में निहित चयन सूची की सिफारिशें श्री बी. विजय कुमार द्वारा दाखिल ओ ए सं. 771/2005 के अंतिम निर्णय की शर्त पर है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 जून 2006

सं.17013/04/2005-भा.व. सेवा-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा भर्ती नियमावली, 1966 के नियम 8 के उपनियम 1 के साथ पठित भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा के निम्नलिखित पांच अधिकारियों को वर्ष 2005 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम

5 के उपनियम 1 के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का छत्तीसगढ़ संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	ए. बी. मिन्ज (एस टी)	22.11.1960
2.	एम. के. सिंह	26.03.1963
3.	सुरेश के. पैकरा (एस टी)	15.07.1957
4.	राजेश नानहोरिया	04.02.1957
5.	अरुण कुमार वहने (एस सी)	01.07.1956

जी. देवनानी, अवर सचिव

दिनांक 22 जून 2006

सं. 18012/05/2005-भा. व. सेवा-II--तमिलनाडु सरकार संवर्ग में भारतीय वन सेवा अधिकारियों को पदोन्नति/सोधी भर्ती सेवाओं की पुष्टी के संबंध में दिनांक 21.3.2006 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। निम्नलिखित सुधार अधिसूचित किए हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की तिथि	पुष्टि की तिथि
1.	श्री के. आर. वरदराजन	11.09.2002	10.09.2003
2.	श्री वैगई मणिशंकर	11.09.2002	10.09.2003
3.	श्री रामासुब्रह्मण्यम	01.05.1998	30.04.2001

जी. देवनानी, अवर सचिव

दिनांक 23 जून 2006

सं.17013/01/2005-भा.व. सेवा-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा भर्ती नियमावली, 1966 के नियम 8 के उपनियम 1 के साथ पठित भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य वन सेवा के निम्नलिखित पांच अधिकारियों को वर्ष 2005 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 5 के उपनियम 1 के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का आंध्र प्रदेश संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	टी. पी. धिम्मा रेड्डी	06.11.1956
2.	डी. नागभूषणम	05.11.1955
3.	एन. चन्द्र मोहन रेड्डी	10.06.1961
4.	टी. सुधाकर	09.12.1951
5.	डॉ. जी. नरसिंह	24.10.1957

जी. देवनानी, अवर सचिव

दिनांक 27 जून 2006

सं. 18012/03/2005-भा. व. सेवा-II--केन्द्र सरकार भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1968 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वन सेवा के कर्नाटक सरकार संवर्ग के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों की उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से पुष्टि करती है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की तिथि	भारतीय वन सेवा में पुष्टि की तिथि
1.	श्री एस. मणिकंदन	07.12.2001	06.12.2004
2.	श्री टी. हीरा लाल	19.08.2002	18.08.2005

जी. देवनानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. ए-12025/15/2002-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. पीयूष प्रिय को 6.12.2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं। डा. पीयूष प्रिय को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-12025/124/96-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. उपासना सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपये के वेतनमान में 28.06.1997 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डा. उपासना सिंह को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, भुम्बई में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए-12025/97/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. अविनाश कपूर को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में 31 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. अविनाश कपूर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2006

सं. 12025/4/2002-प्रशासन-I-स्थापना-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार श्री एम. एस. श्रीधर को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो में 23.6.2006 (अपराह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में वास्तुकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2006

सं. ए-38012/1/2006-प्रशासन-I--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप डा. (श्रीमति) सत्यबागा सानतानाग, अतिरिक्त उप महानिदेशक (जी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.05.2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गयीं हैं।

मोहन लाल, उप निदेशक प्रशासन (एम.एल.)

दिनांक 13 जुलाई 2006

सं. ए-38013/3/2005-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री चन्द्रमा राम, निजी सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 30.06.2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

मोहन लाल, उप निदेशक प्रशासन (एम.एल.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2006

सं. ए-19012/2/2000-ईए--राष्ट्रपति, श्री शेर सिंह, आर्थिक अधिकारी को दिनांक 19.01.2006 (पूर्वाह्न) से कृषि एवं सहकारिता विभाग के संबद्ध कार्यालय अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी (आईईएस के ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19012/11/2006-ईए-I--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) अधिकारी, डा. अजित कुमार न्योग को दिनांक 21 जून, 2006 के पूर्वाह्न से कृषि एवं सहकारिता विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2006

सं. 32011/11/2006-स्थापना-II--राष्ट्रपति, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सहकारिता/त्रण) ग्रेड-I (रु. 6,500-200-10,500/-) श्रीमती सीमा सेठी को 22.06.2006 (पूर्वाह्न) से पूर्णतः तदर्थ आधार पर, कृषि एवं सहकारिता विभाग में छह माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में सहायक निदेशक (सहकारिता/त्रण) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे सहायक निदेशक (सहकारिता/त्रण) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-19011/7/2006-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, डॉ. ओम सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईवीआरआई, इज्जतनगर को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में दिनांक 30.6.2006 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप आयुक्त (आहार तथा चारा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2006

सं. 12024/3/2005-स्था.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 मई, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/10/2005-सी.एस.-II के अनुसरण में राष्ट्रपति लघु उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री इकबाल कृष्ण, निजी सचिव को 15.6.2006 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संवर्ग में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एन. गुप्ता, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री हरदीप सिंह, कर्मचारी कोड सं. 3829, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान

केन्द्र, पंजाब राज्य एकक, चंडीगढ़ में वैज्ञानिक-"बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1999 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री पी. अरुण कुमार, कर्मचारी कोड सं. 2070, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक राज्य एकक, बंगलौर में वैज्ञानिक-"बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 15 सितम्बर 1993 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री अमृतपाल सिंह, कर्मचारी कोड सं. 3614, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पंजाब राज्य एकक, चंडीगढ़ में वैज्ञानिक-"बी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 4 जनवरी, 1999 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री एस. लक्ष्मण, कर्मचारी कोड सं. 1136 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश राज्य एकक, लखनऊ में वैज्ञानिक-"सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 31 जुलाई 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

दिनांक 12 जुलाई 2006

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री पवन कुमार महेश्वरी, कर्मचारी कोड सं. 2116 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मध्य प्रदेश राज्य एकक, भोपाल में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1990 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा सुश्री सारिका शर्मा, कर्मचारी कोड

सं. 4543 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पंजाब राज्य एकक, चंडीगढ़ में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 4 जनवरी 1999 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

दिनांक 28 अप्रैल 2006

सं. पीएफ-477/प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर श्री आर. जी. हेगड़े, उप सचिव, दूरसंचार विभाग, 30 अप्रैल, 2006 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-39013/1/2006-का. व स्था.-I--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र एतद्वारा श्री धरमिन्दर कुमार, कर्मचारी कोड सं. 4360 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पंजाब राज्य एकक, चंडीगढ़ में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस बी' के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 मई 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर
उप निदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

सं. पीएफ-4324/प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर श्री जगदीश कुमार, अनुभाग अधिकारी, दूरसंचार विभाग, 30 अप्रैल, 2006 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 5 मई 2006

सं. ए-32013/9/2005-प्रशा. I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/10/2003 सीएस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी (30.9.1998 से स्व-स्थाने अवर सचिव) श्री आई. एस. बेरवाल को 01.07.1998 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त चयन सूची से अवर सचिव के पद पर श्री बेरवाल की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री आर के ओझा और प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य तथा भारत संघ बनाम विजय कुमार और अन्य मामलों में दायर सिविल रिट याचिका में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

3. श्री आई. एस. बेरवाल को 1.10.2000 से स्थायी आमेसन आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेसित कर लिया गया है।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 31 मई 2006

सं. पीएफ-543/प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर श्री बलराम, सलाहकार (आर्थिकी) दूरसंचार विभाग, 31 मई, 2006 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा.)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. ई आर बी-1/2005/10/28--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु पूरी करने पर 30.6.2006 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती वीना वर्मा	1.1.2006 से 31.3.2006
2.	श्री आर. कं. शर्मा	1.1.2006 से 31.3.2006

2. उपर्युक्त नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई हैं तथा इनके आधार पर इस ग्रेड में आमेसन या निजी सचिव ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित)] में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव (प्रशा.)

(i) श्री एन. अरविंदन	अपर सदस्य (सि. इंजी.)
(ii) श्री देसराज	उप निदेशक
(iii) श्री टी. एन. ढोंगरा	उप निदेशक
(iv) श्रीमती दमयंती परवानी	अनुभाग अधिकारी

एम. के. अग्रवाल, सचिव, (रेलवे बोर्ड)

पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय

(पोत-परिवहन-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. एल एच-21012/1/2006-एस एल--राष्ट्रपति, श्री टी. रामदौस, सहायक कार्यपालक इंजीनियर (यांत्रिक) को दीप-स्तंभ और दीप-पोत-महानिदेशालय में 30 मई, 2006 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (क्षेत्रीय) के पद पर प्रोन्नत करते हैं।

बी. पी. राणा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 2006

सं. 17/2006 फा. सं. 4/8/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2004 के परिणामों के आधार पर, श्री अरूणाभ सेनगुप्ता जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को 15 जून, 2006 पूर्वाह्न से, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सेनगुप्ता की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर श्री कैलाशचन्द्र एवं बनाम भारत सरकार एवं अन्य शीर्षक की रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के परिणाम के अध्वधीन होगी।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 18/2006 फा. सं. 4/8/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2004 के परिणामों के आधार पर, श्री राजेश कुमार खत्री जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को 14 जून, 2006 पूर्वाह्न से, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री खत्री की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर श्री कैलाशचन्द्र एवं बनाम भारत सरकार एवं अन्य शीर्षक की रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 के परिणाम के अध्वधीन होगी।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 23 जून 2006

सं. 19/2006 फा. सं. 5/19/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्री ए. के. राय जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के स्प्लाय विभाग संवर्ग में नियमित वैयक्तिक सहायक हैं, को 22 जून, 2006 अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 20/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो--कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/25/2004-सी.एस. I दिनांक 5 जून, 2006 में निहित प्रावधानों की अनुपालना में, श्री के. एल. मिगलानी जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, तथा वर्तमान में तदर्थ आधार अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय में संवर्ग नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2006

सं. 21/2006 फा. सं. 5/19/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्रीमती बलजीत कौर, जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कौमर्स एवं इंडस्ट्री संवर्ग में नियमित वैयक्तिक सहायक हैं, को 29 जून, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 22/2006 फा. सं. 5/19/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. रावत, जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के योजना आयोग संवर्ग में नियमित वैयक्तिक सहायक हैं, को 30 जून, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 23/2006 फा. सं. 5/19/2005-प्रशा. दो--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार, जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के योजना आयोग संवर्ग में नियमित वैयक्तिक सहायक हैं, को 30 जून, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2006

सं. 24/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, श्री हरप्रोत सिंह, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सिविल एविएशन मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 30 जून, 2006 अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 25/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, कु. ई. टोप्पो, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 3 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2006

सं. 26/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, श्री एस. डी. तिवारी, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 4 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. 27/2006 फा. सं. 4/8/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2004 के परिणामों के आधार पर, श्री देवेन्द्र प्रसाद, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को 4 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. 28/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, श्री पी. वी. प्रसाद, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के रक्षा मंत्रालय संवर्ग में नियमित

सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 5 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 29/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, श्री शम्भू कुमार सिंह जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 10 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. 30/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, श्री एम.एम. सक्सेना जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मानव संसाधन विकास मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, का वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 10 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 31/2006 फा. सं. 4/6/2005-प्रशा. दो.--राष्ट्रपति, श्री डी. एन. यादव जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संघ लोक सेवा आयोग मंत्रालय संवर्ग में नियमित सहायक हैं, को वर्ष 2003 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में से 11 जुलाई, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए, रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. 22/2006-मि.सं.ए-38012/1/2006-प्रशा. एक.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग

(समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 30 जून, 2006 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	श्री एस.एम.ए. उस्मानी	उप निदेशक
2.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	उप निदेशक

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 23/2006-मि.सं.ए-38012/1/2006-प्रशा.एक.--आधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री एन.वी. प्रसाद जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 मई, 2006 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

शुद्धि-पत्र

सं. 23/249/2006-प्रशासन--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 9/2006, फा.सं. 4/6/2005-प्रशा., दिनांक 5.7.2006 में श्री अरूप कालरा के पदनाम में सुधार करके इसे केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक के स्थान पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के वैयक्तिक सहायक पढ़ा जाए।

ए. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2006

सं. 16/2006, फाईल संख्या-25/3(10)/2005-स्थापना एक--इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2004 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री अम्बार्जे हरीश गिरीश को दिनांक 25-04-2006 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर

रु. 8,000--13,500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री अम्बार्जे हरीश गिरीश कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2006

सं. ए-11013/6/2005-डीडी/ए.--केन्द्र सरकार, दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) के खंड 9 के उप खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती मधु आर. मेहता, वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को एतद्द्वारा 14,300--18,300 रु. के वेतनमान में दिल्ली नगर कला आयोग के सचिव के रूप में पदभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करती है।

परमजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 2006

सं. ए-19011/9/2006-प्रशा.1.--राष्ट्रपति, श्री एस.के. श्रीवास्तव आई.ए.एस. (ए एम : 78) को 22 जून, 2006 अपराह्न से अगले आदेश तक, श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2006

सं. ए-19011/7/2006-प्रशा.1.--राष्ट्रपति, श्रीमती गुरजोत कौर, आई ए एस (आर जे : 81) को श्रम और रोजगार मंत्रालय में 12 जून, 2006 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव



LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd May 2006

No. F.40/7/2006/AN-I/GN-5653.—The Speaker is pleased to grant the first financial upgradation (FU) to Smt. Achla Malhotra, Senior Parliamentary Reporter by her placement in the next higher scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- on personal basis with effect from 06th May, 2006 under the Assured Career Progression/Financial Upgradation Scheme.

2. Grant of first financial upgradation/placement in the higher scale of pay to Smt. Achla Malhotra will be regulated in accordance with the provisions contained in the R&CS Order No. PDA-1042/2001 dated the 05th October, 2001.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

The 03rd July 2006

No. F.40/7/2006/AN-I/GN-5685.—The Speaker is pleased to grant the first financial upgradation (FU) to the following Parliamentary Reporters Grade-II in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- by their placement in the next higher scale of pay of Rs. 10,650-325-15,850/- on personal basis with effect from the date(s) as indicated against each, under the Assured Career Progression/Financial Upgradation Scheme:—

Sl. No.	Name	Effective date of first FU
1.	Sh. R. Baskaran (appointed as Parliamentary Reporter Grade-I in the scale of pay of Rs. 10,650—15,850 w.e.f. 29th May, 2006 on ad-hoc basis)	30.06.2006
2.	Sh. Kishore Kumar Dhingra	24.06.2006
3.	Sh. Ramesh Chand Gossain	24.06.2006
4.	Sh. Kona Madhusudana Rao	24.06.2006
5.	Sh. Somnath Banerjee	29.06.2006
6.	Sh. S. Prabhakar	23.06.2006

2. Grant of first financial upgradation/placement in the higher scale of pay to the above mentioned persons will be regulated in accordance with the provisions contained in the R&CS Order No. PDA-1042/2001 dated the 05th October, 2001.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

The 10th July 2006

No. F.40/7/2006/AN-I/GN-5686.—The Speaker is pleased to grant the first financial upgradation (FU) to Shri Muthiah Mohan, Parliamentary Reporter Grade-II in the

scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- by his placement in the next higher scale of pay of Rs. 10,650-325-15,850/- on personal basis with effect from 8th July, 2006 under the Assured Career Progression/Financial Upgradation Scheme.

2. Grant of first financial upgradation/placement in the higher scale of pay to Shri Muthiah Mohan will be regulated in accordance with the provisions contained in the R&CS Order No. PDA-1042/2001 dated the 05th October, 2001.

J. P. SHARMA, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th May 2006

No. A-12022/2/2006-Admn-IV.—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale (Rs. 10,000-325-15,200/-) to the Junior Administrative Grade (Rs. 12,000-375-16,500/-) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 11016/2/2005-IES dated 07.04.2006, Shri S. M. Jayapalan, an officer of Indian Economic Service assumed charge as Deputy Adviser in the Regional Evaluation Office of the Programme Evaluation Organisation, Planning Commission at Hyderabad w.e.f. the fore-noon of 27th April, 2006.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU)

New Delhi-110066, the 11th July 2006

No. 32/34/7/2001-Ad.I(A)/NCRB-5264.—The President is pleased to relieve Shri S. K. Jain, IPS (AM: 84) from the post of Deputy Director, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs w.e.f. the afternoon of 2nd June, 2006.

SUSHILA MINJ, Section Officer

New Delhi, the 12th July 2006

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri R. P. Singh, Indian Police Service Officer of 1975 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th June, 2006.

VIKRAM DEV DUTT, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th July 2006

No. 14012/11/2006-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the

following members of the Indian Administrative Service borne on the AGMU Cadre, with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri Nikhil Kumar	2002	02.09.2004
2.	Shri Vikas Anand	2002	02.09.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 3rd July 2006

No. Q/PA-1/09/2006.—On attaining the age of superannuation, Smt. Leela Krishnamurthy Ponappa, Ambassador, Embassy of India, The Hague, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of June 30, 2006.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP & Cadre)

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 6th July 2006

No. D-III/460/CF-40/2004.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Shashank Bhagat as Honorary Consul of the Republic of El Salvador in Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Shashank Bhagat comprises the Territory of Delhi.

SHAM K. MUDGIL, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 11th July 2006

No. A-12011/03/2006-Admn.II.—In pursuance of O. M. No. 32014/2/2005-CAS dated 15.06.2006 & 27.06.2006 of the Department of Expenditure, the President is pleased to appoint the following Officials as Section Officer of CSS in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Exam, 2004 with effect from the date as indicated against their names:—

Sl. No.	Name of the Officials	Rank No.	Date of Joining
1.	Sh. S. R. Raja	166	28.06.2006 (FN)
2.	Ms Leaticia Gomes	214	30.06.2006 (FN)
3.	Sh. Vijay Kumar (SC)	327	03.07.2006 (AN)

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 12th July 2006

No. A-19011/10/2006-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Anand Mohan Bajaj, (IA&AS: 90), as Director in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 11th July 2006 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 30th June 2006

No. A-15012/1/2005-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri K. J. Paratwar, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai, for a further period of five years with effect from 14th December, 2005 (F. N.) or till he attains the age of 62 years, or till further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 7th July 2006

No. 13/2/2004-DRT.—On attaining the age of superannuation, Shri A. G. Mishra, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Mumbai will demit the charge of the post of Presiding Officer w.e.f. 7th July, 2006 (A. N.).

A. THOMAS, Under Secy.

The 10th July 2006

No. 8/2/2004-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Prem Mohan Mishra, Deputy Legal Adviser, Ministry of Law and Justice, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Nagpur, for a period of five years with effect from 21st June, 2006 or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 11th July 2006

No. A-15012/1/2005-DRT.—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri M. Vishwanatham, Advocate, as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Bangalore, for a period of five years with effect from

23rd June, 2006 (F. N.) or till he attains the age of 62 years, or till further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Under Secy.

The 10th July 2006

No. A-20012/8/69-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ram Kanwar, Section Officer (ad-hoc) to the Section Officer Grade of CSS on regular basis with effect from the forenoon of 30th June, 2006, consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2003 against the Seniority Quota.

2. Shri Ram Kanwar, Section Officer will be on 'trial' for a period of two years from 30.06.2006, as laid down in the CSS Rules.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 12th July 2006

No. A-11019/1/2006-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Poonattu Varkey Zacharias of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the Office of the Pr. Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 30.03.2006 (F. N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

No. A-11019/1/2006-EG.—The President has been pleased to appoint Shri Ramaswamy Narayanan of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the Office of the Principal Accountant General (Civil & Commercial), Karnataka, Bangalore in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 03.04.2006 (A. N.) until further orders.

MAHENDRA KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 14th July 2006

No. A-32014/1/2006-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of the CSSS cadre of Ministry of Finance to the post of Private Secretary in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Expenditure on purely ad-hoc basis with effect from the date mentioned against their name upto 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of the official	Date of appointment
1	2	3
	S/Shri/Smt.	
1.	Kusum Jain	30.06.2006
2.	Manjit Kaur	03.07.2006

1	2	3
3.	R. R. S. Rawat	30.06.2006
4.	Madhu Gupta	30.06.2006
5.	Krishan Punjwani	30.06.2006
6.	Amarjit Singh	03.07.2006

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (merged) of CSSS. The ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 13th July 2006

No. A-23021/1/2001-Admn.—Consequent upon his qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 held by the Union Public Service Commission, the President of India is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Dubey, a regular Assistant of this Ministry as Section Officer in the CSS Cadre of Ministry of Coal on regular basis, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 29th June, 2006, against Select List (Examination Quota) of 2004 of Section Officers' Grade.

ANAND PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 5th July 2006

No. 2(12)/2002-Estt.—On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Shri Anil Kumar, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs and working on an adhoc basis as Section Officer in the same service and cadre, is hereby included in the above mentioned select list w.e.f. 20.06.2006 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

BABOO RAM, Under Secy.

The 6th July 2006

No. 11(39)/2005-Estt.—The President is pleased to appoint on adhoc basis Shri Prabhu Dayal, grade 'C' stenographer of the CSSS cadre of the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Posts) and working as Private Secretary (Merged 'A' & 'B')

in the same cadre to officiate as Private Secretary (merged 'A' & 'B') of the CSSS cadre of the Ministry of Steel w.e.f. 30.06.2006 (AN) up to 31.12.2006 or until further orders whichever is earlier.

The adhoc appointment will be subject to the following conditions:—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in grade of Private Secretary ('A' & 'B' merged) of the CSSS; and

The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

BABOO RAM, Under Secy.

No. 5(1)/2005-Estt.—In continuation of Ministry of Steel Notification of even number dated 19th December, 2005, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri A. K. Chugh as Principal Private Secretary in the Ministry of Steel with effect from 01.07.2006 to 31.12.2006 or until further orders whichever is earlier.

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade of PPS indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the grade.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 12th July 2006

No. A-19011/3/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Lohani, CSS, Director in the Ministry of Food Processing Industries.

Shri S. K. Lohani has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Food Processing Industries w.e.f. 11.07.2006 (FN).

M. JAYARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 29th June 2006

No. A-11011/4/2002-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Office Order No. 13016/2/2006-IES dated 20.06.2006, the President is pleased to appoint Smt. Sunita Yadav (IES), as Deputy Director in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 28th June, 2006 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 16th June 2006

No. A-11013/3/2004)-E.I.—The President is pleased to appoint Shri V. B. Singh, (IES: 85) as Private Secretary to the Minister of State (Agriculture) & Minister of State (Consumer Affairs, Food & Public Distribution) (Shri Taslimuddin) at the level of Director for a period of five years w.e.f. the forenoon of 14th June, 2006 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event takes place the earliest.

S. S. K. RAO, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 30th June 2006

No. A-19014/30/84.Admn.I(A).—The President is pleased to retire the following officers from the Government service on attaining the age of superannuation on 30th June, 2006 (AN).

1. Dr. (Ms.) Usha Sharma, Scientist 'G'
2. Dr. J. K. Sharma, Scientist 'G'
3. Shri M. L. Gupta, Scientist 'G'
4. Shri S. K. Vij, Section Officer

J. K. TRIKHA, Under Secy.

The 3rd July 2006

No. A-19014/05/2004-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Anita Aggarwal as Scientist 'C' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 28.06.2006 (FN) and until further orders.

J. K. TRIKHA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 6th July 2006

No. A-32011/02/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Mrs. Rajalakshmi Muralidharan, Scientist 'B' in this Department as Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme on notional basis with effect from the forenoon of 1st January, 2003 and until further orders.

The actual financial benefit on account of the above would be admissible to her with effect from 5th February, 2006, the date of her return on expiry of leave.

S. C. AGRAWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 10th July 2006

No. A-19018/4/2005-Estt.—The President is pleased to relieve Shri Satish Bairagi, Scientist 'C' to repatriate to his parent Department Cabinet Secretariat, Bikaner House, Shahjahan Road, New Delhi after completion of his deputation period with DSIR, w.e.f. 10.07.2006 (A. N.) with direction to report for duty to the office of the Cabinet Secretariat, Government of India, New Delhi.

SRINIBAS PRADHAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 3rd July 2006

No. A-12012/10/2005.P.II(.)—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/2/2006-CS.I dated 29th June 2006, the President is pleased to appoint Smt. Preeti Srivastava, Deputy Secretary (in-situ) of CSS, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on ad-hoc basis in the Ministry of Environment & Forest with effect from the forenoon of 29th June, 2006.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

New Delhi, the 16th June 2006

No. 17013/1/2005-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for the year 2005 was held on 31st December, 2005. Union Public Service Commission have approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of the following members of the State Forest Service of Andhra Pradesh towards filling up of promotion vacancy available in Andhra Pradesh Cadre of the IFS cadre as on 1st January, 2005:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	T. P. Thimma Reddy	06.11.1956
2.	D. Nagabhushanam	05.11.1955

1	2	3
	S/Shri	
3.	N. Chandra Mohan Reddy	10.06.1961
3A*.	M. A. Waheed	12.05.1953
4.	T. Sudhakar	09.12.1951
5.	Dr. G. Narsaiah	24.10.1957

* The name of the officer has been considered in addition to the normal zone of consideration and his name is included in addition to the normal size of the Select List. His name is included as provisional as disciplinary proceedings are pending against him.

2. The recommendations of the Selection Committee as contained in the minutes of its meeting held on 31.12.2005 are subject to the final outcome of OA No. 771/2005 filed by Sh. B Vijayakumar.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 23rd June 2006

No. 17013/1/2005-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following five officers of the State Forest Service of Andhra Pradesh to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2005 and allocate them to Andhra Pradesh cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	T. P. Thimma Reddy	06.11.1956
2.	D. Nagabhushanam	05.11.1955
3.	N. Chandra Mohan Reddy	10.06.1961
4.	T. Sudhakar	09.12.1951
5.	Dr. G. Narsaiah	24.10.1957

G. DEVNANI, Under Secy.

The 21st June 2006

No. 17013/1/2005-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following five officers of the State Forest Service of

Chhattisgarh to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2005 and allocate them to Chhattisgarh cadre of India Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	A. B. Minz (ST)	22.11.1960
2.	M. K. Singh	26.03.1963
3.	Suresh K. Paikra (ST)	15.07.1957
4.	Rajesh Nanhoria	04.02.1957
5.	Arun Kumar Vahne (SC)	01.07.1956

G. DEVNANI, Under Secy.

The 22nd June 2006

No. 18012/05/2005-IFS-II.—In partial modification of Notification of even No. dated 21.03.2006 confirming the services of promotee/Direct Recruit IFS officers borne on the cadre of Tamil Nadu Government. The following corrections are notified as under:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment to IFS	Date of Confirmation
1.	Sh. K. R. Varadarajan	11.09.2002	10.09.2003
2.	Shree Vaighai Mani Shankar	11.09.2002	10.09.2003
3.	Thiru Ramasubramanian	01.05.1998	30.04.2001

G. DEVNANI, Under Secy.

The 27th June 2006

No. 18012/03/2005-IFS-II.—In exercise of the provisions conferred by rule 4 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the undermentioned Indian Forest Service Officers, borne on Karnataka Cadre in the Indian Forest Service w.e.f. the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Appointment to IFS	Date of Confirmation in IFS
1.	Sh. S. Manikandan	07.12.2001	06.12.2004
2.	Sh. T. Heera Lal	19.08.2002	18.08.2005

G. DEVNANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 07 July 2006

No. A-12025/15/2002-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Peeyush Priy to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 06.12.2004 until further orders. Dr. Peeyush Priy is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Patna.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 10 July 2006

No. A-12025/124/96-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Upasana Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200—4000/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 28.06.1997 until further orders. Dr. Upasana Singh is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 11 July 2006

No. A-12025/97/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Avinash Kapoor to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 31st August, 2005 until further orders. Dr. Avinash Kapoor is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 5th July 2006

No. A-12025/4/2002-Admn./Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri M. S. Sridhar, Architect in CPWD, as Architect in the Central Design Bureau under DGHS, Ministry of Health & FW in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- for a period of three years w.e.f. 23.06.2006 (AN) on deputation basis.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 28th June 2006

No. A-38012/1/2006-Admn.-I.—Dr. (Mrs.) Sathyabama Santhanam, Addl. DDG (G) of the Directorate General of

Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.05.2006 (A. N.):

MOHAN LAL, Dy. Director Admn. (ML)

The 13th July 2006

No. A-38013/3/2005-Admn.-I.—On attaining the age of superannuation Shri Chandrama Ram, Private Secretary in the Directorate General of Health Services retired from Government service with effect from 30.06.2006 (Afternoon).

MOHAN LAL, Dy. Director Admn. (ML)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 03rd July 2006

No. A-19012/2/2000-EA.—The President is pleased to appoint Shri Sher Singh, Economic Officer in the Directorate of Economics and Statistics, an attached office of Department of Agriculture and Cooperation, to the post of Research Officer (Grade IV of IES) in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- w.e.f. 19.01.2006 (FN).

RAJ KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/11/2006-EA.—The President is pleased to appoint Dr. Ajit Kumar Neog, an Higher Administrative Grade (HAG) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Economic and Statistical Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, with effect from the forenoon of 21st June, 2006, in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/-.

RAJ KUMAR, Under Secy.

The 7th July 2006

No. 32011/11/2006-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Seema Sethi, Senior Technical Assistant (Cooperation/Credit) Grade-I (Rs. 6,500-200-10,500/-) as Assistant Director (Cooperation/Credit) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Department of Agriculture & Cooperation purely on ad-hoc basis with effect from 22.06.2006 (FN), for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Director (Cooperation/Credit).

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 11th July 2006

No. A-19011/7/2006-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. Om Singh, Senior Scientist, IVRI, Izzatnagar as Deputy Commissioner (Feed and Fodder) in Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 30.06.2006 or until further orders, whichever is earlier.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th June 2006

No. 12024/3/2005/E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/10/2005-CS-II dated 18th May 2006, the President is pleased to appoint Sh. Iqbal Krishan, PS belonging to CSSS cadre of the Ministry of Small Scale Industries as Private Secretary in the cadre of Department of Secondary & Higher Education in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on regular basis w.e.f. 15.06.2006 (forenoon).

S. N. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 10th July 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Hardeep Singh, Emp. Code-3829, from the post of Scientist "B", NIC-Punjab State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 21st April 1999 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

The 11th July 2006

No. A-39013/1/2006-P&E-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri P. Arun Kumar, Emp. Code-2070, from the post of Scientist "B", NIC-Karnataka State Unit, Bangalore with effect from the afternoon of 15th September 1993 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

No. A-39013/1/2006-P&E-I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Amritpal Singh, Emp.

Code-3614, from the post of Scientist "B", NIC-Punjab State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 04th January 1999 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

No. A-39013/1/2006-P&E.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. Laxman, Emp. Code-1136, from the post of Scientist "C", NIT-Uttar Pradesh State Unit, Lucknow with effect from the afternoon of 31st July 1996 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

The 12th July 2006

No. A-39013/1/2006-P&E.I.—The Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Pawan Kumar Maheshwari, Emp. Code-2116, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Madhya Pradesh State Unit, Bhopal with effect from the afternoon of 25th October 1990 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

No. A-39013/1/2006-P&E.I.—The Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Ms. Sarika Sharma, Emp. Code-4543, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Punjab State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 4th January 1999 and she stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

No. A-39013/1/2006-P&E.I.—The Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Dharminder Kumar, Emp. Code-4360, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Punjab State Unit, Chandigarh with effect from the afternoon of 30th May 1997 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

No. A-39013/1/2006-P&E.I.—The Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Shri Ankur Kumar Bora, Emp. Code-3840, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade "SB", NIC-Assam State Unit, Guwahati with effect from the afternoon of 10th December 1997 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (P&E-I)

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 25th April 2006

No. A-32014/1/2004-Admn.-I.—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to officiate as Private Secretary {(Stenographer Grade 'A & B' (Merged))} on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the cadre of Department of Telecommunications for a period of 3 months as indicated against each or till the availability of regular Private Secretary {(Stenographer Grade 'A & B' (Merged))} or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1.	Smt. Veena Verma	01.01.2006 to 31.03.2006
2.	Sh. R. K. Sharma	01.01.2006 to 31.03.2006

2. The above appointments are purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade {(Stenographer Grade 'A & B' (Merged))}.

T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

The 28th April 2006

No. PF-477/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri R. G. Hegde, Deputy Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April 2006.

T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

No. PF-4324/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Jagdish Kumar, Section Officer, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April 2006.

T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

The 5th May 2006

No. A-32013/9/2005-Admn.I.—In pursuance to the Department of Personnel and Training's O. M. No. 4/10/2003-CS.I, dated 14.11.2005, the President is pleased to appoint Shri I. S. Berwal, Section Officer (in-situ Under Secretary w.e.f. 30.09.1998) of the Central Secretarial Service (CSS) in the Department of Telecommunications, Ministry of Communication & Information Technology, to Grade I (Under Secretary) of the CSS on regular basis with effect from 01.07.1998.

2. The appointment of Shri Berwal to the post of Under Secretary from the above Select List shall be subject to the

final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R. K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and Others and Union of India Vs. Vijay Kumar & Others.

3. Shri I. S. Berwal has been absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited on permanent absorption basis w.e.f. 01.10.2000.

T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

The 31st May 2006

No. PF-543/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Balram, Adviser (Economics), Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May 2006.

T. KUNDHAVI, Under Secy. (Admn. I)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th July 2006

No. ERB-I/2005/10/28.—The following officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30.06.2006.

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| (i) Shri N. Aravindan | Addl. Member (CE) |
| (ii) Shri Des Raj | Deputy Director |
| (iii) Shri T. N. Dhingra | Deputy Director |
| (iv) Smt. Damyanti Parwani | Section Officer |

M. K. AGARWAL, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 10th July 2006

No. LH-21012/1/2006-SL.—The President is pleased to promote Shri T. Ramadoss, Assistant Executive Engineer (Mech.) to the post of Deputy Director (Regional) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from the fore-noon of 30th May, 2006.

V. P. RANA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 20th June 2006

No. 17/06(F. No.4/8/2005-Adm. II).—On the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 held by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Arunava Sengupta, a regular Assistant of the Ministry of Agriculture & Cooperation Cadre of CSS, to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS in the

scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of the 15th June, 2006 until further orders.

2. The appointment of Shri Sengupta shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble High Court.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 18/06(F. No.4/8/2005-Adm. II).—On the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004 held by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Khatri, a regular Stenographer Grade 'C' of the Ministry of Information & Broadcasting Cadre of CSS, to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of the 14th June, 2006 until further orders.

2. The appointment of Shri Khatri shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs. Union of India & Ors. before the Hon'ble High Court.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 23rd June 2006

No. 19/2006 (F. No. 5/19/2005).—The President is pleased to appoint Shri A. K. Roy, a regular Stenographer Grade 'C' of the Department of Supply Cadre of Central Secretariat Stenographers Service, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the Ministry of Power Cadre of CSSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on regular basis, with effect from the afternoon of the 22nd June, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 20/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—In pursuance of the provisions contained in the Department of Personnel & Training O. M. No. 5/25/2004-CS.I dated the 5th June, 2006, Shri K. L. Miglani, a regular Assistant of the Ministry of Power Cadre of CSS, presently officiating in the Section Officer grade, on adhoc basis, is appointed to the grade of Section Officer of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota of the Select List year 2003.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 30th June 2006

No. 21/2006 (F. No. 5/19/2005).—The President is pleased to appoint Smt. Baljeet Kaur, a regular Stenographer Grade 'C' of the Ministry of Commerce & Industry (Department of Policy & Promotion) Cadre of Central Secretariat Stenographers Service, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the Ministry of

Power Cadre of CSSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on regular basis, with effect from the afternoon of the 29th June, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 22/2006 (F. No. 5/19/2005).—The President is pleased to appoint Shri S. S. Rawat, a regular Stenographer Grade 'C' of the Planning Commission Cadre of Central Secretariat Stenographers Service, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the Ministry of Power Cadre of CSSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on regular basis, with effect from the afternoon of the 30th June, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 23/2006 (F. No. 5/19/2005).—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, a regular Stenographer Grade 'C' of the Planning Commission Cadre of Central Secretariat Stenographers Services, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (merged) of the Ministry of Power Cadre of CSSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on regular basis, with effect from the forenoon of the 30th June, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 3rd July 2006

No. 24/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri Harpreet Singh, a regular Assistant of the Ministry of Civil Aviation Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the afternoon of the 30th June, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 25/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Km. E. Toppo, a regular Assistant of the Ministry of Home Affairs Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the afternoon of the 3rd July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 4th July 2006

No. 26/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri S. D. Tewari, a regular Assistant of the Ministry of Defence Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-

10,500/-, with effect from the afternoon of the 4th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 6th July 2006

No. 27/2006 F. No. 4/8/2005-Admn.II.—On the basis of the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2004, held by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Devendra Prasad, a regular Assistant of the CSS Cadre of Ministry of Finance (Department of Expenditure), to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the forenoon of the 4th July, 2006, until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 10th July 2006

No. 28/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Sh. P. V. Prasad, a regular Assistant of the Ministry of Defence Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the afternoon of the 5th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 29/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri Shamhu Kumar Singh, a regular Assistant of the Ministry of Information & Broadcasting Cadre of CSS to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the forenoon of the 10th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 11th July 2006

No. 30/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri M. M. Saxena, a regular Assistant of the Ministry of Human Resource Development Cadre of CSS, to the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the afternoon of the 10th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 31/2006 (F. No. 4/6/2005-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri D. N. Yadav, a regular Assistant of the Union Public Service Commission Cadre of CSS, to

the Section Officer grade of the Ministry of Power Cadre of CSS, on regular basis, against the Seniority Quota for the Select List year 2003, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the afternoon of the 11th July, 2006 until further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 10th July 2006

No. 22/2006 (F. No. A-38012/1/2006-Adm.I).—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, Central Electricity Authority retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th June, 2006 on attaining the age of superannuation:—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation
1.	Shri S. M. A. Usmani	Deputy Director
2.	Shri Surendra Prasad	Deputy Director

R. C. ARORA, Under Secy.

No. 23/2006 (F. No. A-38012/1/2006-Adm.I).—Shri N. V. Prasad, Deputy Director, W. R. P. C., Mumbai, Central Electricity Authority and on officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st May, 2006 on attaining the age of superannuation.

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 10th July 2006

CORRIGENDUM

No. 23/249/2006-Admn.—In this Ministry's Notification No. 9/2006, F. No. 4/6/2005-Admn., dated 05.07.2006 the designation of Shri Arun Kalra may please be corrected read as Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers Service cadre instead of Assistant of the CSS Cadre.

N. K. GUPTA, Under Secy.

The 14th July 2006

No. 16/2006 (F. No. 25/3(10)/2005-E.I).—On the results of the Engineering Services Examination, 2004 the

President is pleased to appoint Shri Umbarje Harish Girish to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Water Commission with effect from 25.04.2006 (FN).

2. Shri Umbarje Harish Girish will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th June 2006

No. A-11013/6/2005-DDIA.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Smt. Madhu R. Mehta, Architect, CPWD as Secretary to the Delhi Urban Art Commission in the scale of Rs. 14,300—18,300/- on deputation basis w.e.f. the date of assumption of charge of the post, for a period of three years, or until further orders, whichever event happens earlier.

PARMJIT SINGH, Desk Officer

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th July 2006

No. A-19011/9/2006-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Srivastava, IAS (AM : 78) as Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment with effect from the afternoon of 22nd June, 2006 until further orders.

C. M. SHARMA, Under Secy.

The 11th July 2006

No. A-19011/7/2006-Adm.I.—The President is pleased to appoint Ms. Gurjot Kaur, IAS (RJ : 81) as Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment with effect from the forenoon of 12th June, 2006 until further orders.

C. M. SHARMA, Under Secy.